



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]
No. 21]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1983/चैत्र 22, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1983/CHAITRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1983

आ. अ. 42(अ).—गुजरात राज्य में 5-पोरबन्दर संसदीय
निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री ओडेद्रा
मालदेव जी माण्डलिकजी की मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप
उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का
43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में,
निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि
ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 18 मई, 1983 (बुधवार) से
पूर्व, उक्त अधिनियम के और तख्तीन बनाए गए नियमों और
आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, एक व्यक्ति निर्वाचित कर
दे।

[सं. 100/गुज.-लो. स./1/82(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th April, 1983

O.N. 42(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House
of the People by the reason of the death of Shri Odedra

52 GI/83

Maldevji Mandlikji, a member elected to that House from
5-Porbandar Parliamentary Constituency in the State of
Gujarat;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-
section (1) of section 149 of the Representation of the People
Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls
upon the said constituency to elect a person to fill the said
vacancy before 18th May, 1983 (Wednesday), in accordance
with the provisions of the said Act and the Rules and orders
made thereunder.

[No. 100/GJ-HP/1/82(1)]

आ. अ. 42(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन
आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/गुज.-लो.सं./1/82 (1),
तारीख 12 अप्रैल, 1983 के अनुसरण में 5-पोरबन्दर संसदीय
निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 19 अप्रैल,
1983 (मंगलवार) ।

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 20 अप्रैल, 1983
(बुधवार) ।

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 22
अप्रैल, 1983 (शुक्रवार) ।

(1)

(घ) यह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा 15 मई, 1983 (रविवार) ।

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा । 18 मई, 1983 (बुधवार)
नियत करता है ।

[सं. 100/गुज.-लो. स./1/82(2)]

O.N. 43(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 5-Porbandar Parliamentary Constituency in the State of Gujarat in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/1/82(1), dated the 12th April, 1983 :—

- (a) the 19th April, 1983 (Tuesday), as the last date for making nominations ;
- (b) the 20th April, 1983 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) the 22nd April, 1983 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) the 15th May, 1983 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 18th May, 1983 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/GJ-HP/1/ 2(2)]

आ. अ. 44 (अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/गुज.-लो. स./1/82 (1) तारीख 12 अप्रैल, 1983 के अनुसरण में 5-पोरबन्दर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा ।

[सं. 100/गुज.-लो. स./1/82(3)]

श्री. एन. नागर, अवर सचिव
भारत निर्वाचन आयोग ।

O.N. 44(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 5-Porbandar Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/1/82(1) dated the 12th April, 1983.

[No. 100/GJ-HP/1/82(3)]

O. N. NAGAR, Under Secy.
Election Commission of India